



May 21, 2021

BSE Ltd. Corporate Relationship Department 1st Floor New Trading Rotunda Building, P J Towers Dalal Street Fort, Mumbai-400001 Scrip Code – 530517	National Stock Exchange of India Ltd. Listing Department, Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai- 400 051 Scrip Code – RELAXO
---	---

Sub: Newspaper Advertisement for Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2021

Dear Sir,

Please find enclosed newspaper advertisement for Audited Financial Results for the quarter and year ended on March 31, 2021 published in Economics Times (Mumbai and Delhi – English Edition) and Navbharat Times (Delhi – Hindi Edition) on May 21, 2021.

The same is for your information and record.

Thanking You,
Yours Sincerely,

For **Relaxo Footwears Limited**,

Vikas Kumar Tak
Company Secretary and Compliance Officer
Membership No.: FCS 6618

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Registered Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place,
District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085. Phones: 46800 600, 46800 700
Fax: 46800 692 E-mail: rfl@relaxofootwear.com
CIN L74899DL1984PLC019097

Classification: **Public**



www.relaxofootwear.com

ET Markets

Beating Volatility WWW.ETMARKETS.COM MUMBAI, FRIDAY, 21 MAY 2021

SMART INVESTING
Deepak Fertilisers Going Strong on Premium Push, Better Financials

Six tranches of sovereign gold bonds to hit market between May and Sept; Analysts suggest 5-10% allocation to the metal as a hedge against inflation, negative real yields on bonds

'Gold Expected to Rise, Stagger Bets Via Sovereign Bond Issues'

Prashant.Mahesh@timesgroup.com

Mumbai: Investors could stagger their investments in gold through the six tranches of sovereign gold bonds between May and September, said financial planners. Gold prices have been flat over the last one year but analysts expect surge in inflation, negative real yields on bonds and a depreciating rupee due to the second wave of Covid-19 to drive up the value of the precious metal over the next year or so.

With equity prices advancing in the past one year and valuations at elevated levels, investment advisors believe it is a good time to cut exposure to equities and reallocate to other assets. "Due to the sharp run-up in stock prices over the last one year, there is a need to rebalance portfolios, by trimming some equity," said Anup Maheshwari, founder, MoneyMatters, a Mumbai-based financial planner. "Some money can be

allocated to gold systematically over the next six months through sovereign gold bonds."

Maheshwari believes, depending on risk profile, investors should have a 5-10% allocation to gold.

The first of the six instalments of the sovereign gold bond issues is open till May 21, which will be followed immediately by another tranche on May 24-28.

There will be four more till September 2021. Investors will have to pay ₹1,727 per gram of gold after the ₹0.10 per gram discount for digital payments for the first tranche. Gold prices have moved up by 1% in the last one year in rupee terms, while in dollar terms they are up 5.9%.

In 2020, gold shot up around 26%, outperforming most traditional asset classes as the ultra-loose monetary policy by central banks in developed world combined with the

Time Your Buys

TRANCHE	OFFER OPEN FOR INVESTORS	DATE OF ISSUANCE
Series I	May 17-21, 2021	25-May-21
Series II	May 24-28, 2021	01-Jun-21
Series III	May 31-Jun 04, 2021	08-Jun-21
Series IV	July 12-16, 2021	20-Jul-21
Series V	Aug 09-13, 2021	17-Aug-21
Series VI	Aug 30-Sep 03, 2021	07-Sep-21



Source: RBI

fiscal package by the US government has soked fears of inflation. Gold is seen as a hedge against risks.

"Given the lingering health and economic crisis, central banks around the world, led by the Federal Reserve, will continue to stay accommodative to support growth, which means interest rates will stay low for longer, making bonds less effective as portfolio diversifiers," says Chirag Mehta, senior fund manager, Quantum Mutual Fund. Mehta said low nominal rates accompanied by higher inflation will keep real interest rates even lower and boost the demand for gold.

In addition to accommodative monetary policies, buying by central banks will also keep prices firm.

Continued on » Smart Investing

FPI INVESTMENT UP MORE THAN 20 TIMES FROM FY20

FPIs Brought in Almost All Foreign Flows in FY21

Foreign investments rose 80% to \$80b last fiscal but 'durable' FDI flows were flat

Gayathri.Nayak@timesgroup.com

Mumbai: Hot money dominated the flow of overseas funds to India last fiscal raising the risk of heightened volatility in financial markets whenever the 'sudden stop' comes with the Federal Reserve hints of tapering its bond purchases. The combined flow through FPI and FDI rose 80% last fiscal taking India's forex reserves to a new high. RBI data show almost the entire surge in inflows was due to portfolio flows with durable FDI flows remaining flat. Total foreign investment rose 80% from \$44 billion to \$80 billion, according to latest Reserve Bank data. The rise is almost entirely due to foreign portfolio inflows which rose more than 20 times



from \$1.4 billion in FY20 to \$36.8 billion in FY21.

After an initial pullout in April 2020 following the pandemic induced lockdown globally, foreign investors continued to invest in Indian equities in a big way. But as the second Covid-19 wave intensified in India, foreign portfolio investors pulled out about \$2 billion since April this year reversing inflows of \$7.6 billion in the January-March quarter.

"High FPI flows is a reflection of ample global liquidity still there despite sentiment towards India in the medium term," said Anubhuti Sahay, head of South Asia, economic research, Standard Chartered Bank. "While risks of FPI outflows exist, given that it comes after a gap of two years, the overall quality of flows is not concerning."

Market Trends

STOCK INDICES	% CHANGE
CXN Nifty	14906.05 ▲ 0.83
S&P Sensex	49564.86 ▼ 0.68
MSCI India	1125.42 ▼ 0.53
MSCI EM	3151.56 ▼ 0.16
MSCI BRIC	812.16 ▼ 0.05
MSCI World	12699.79 ▼ 0.12
Nikkei	28098.25 ▲ 0.19
Hang Seng	28450.29 ▼ 0.50
Kospi(Korea)	3162.28 ▼ 0.34
Starit Times	3109.81 ▼ 0.18

OIL (\$/BRL)	BOND (%)
DUBAI CRUDE	GSEC 2030 YIELD
63.84	96.9B
2.34	0.12
Absolute Change	Coupon 5.79%

US (\$/INR)	India (₹/100M)
OPEN	1869.90
LAST*	1873.00
Prev Chg (%)	-0.45
	-0.48

FOREX RATE (₹/\$ Change Rate)

OPEN	LAST
73.16	73.11

Market on Twitter@ETMarkets

BPCL Shares in High Demand on Likely Large Dividend Payout


Analysts peg net cash of oilco at around ₹13k cr; dividend could be as high as ₹55 per share

Rajesh.Mascarenhas@timesgroup.com

Mumbai: Investors lapped up shares of state-owned Bharat Petroleum Corporation (BPCL) on Thursday after the company said it will declare a final dividend on May 28. Analysts said expectations are high that the oil marketer and refiner, which is high

re traded on both the bourses on Thursday which is 27% higher than the previous 10 days average. BPCL has received ₹6,876 crore from the sale of Numaligarh Refinery (NRL) in Assam to a consortium of Oil India and Engineers India. Also in March, BPCL sold treasury shares worth ₹5,000 crore of the company. Later, it acquired Oman Oil's 36.62% stake in Bina refinery for ₹2,400 crore.

Analysts said BPCL's net cash after the recent share deals would be around ₹13,000 crore and if the company were to distribute entirely as a dividend, it would work out to be ₹55 per share.



Continued on » Smart Investing

A Monk Who Trades

What are you making a funds transfer for?

I am transferring margin to my SEBI registered broker for trading in the commodity exchange.

On man, you're a rookie. I had entered into the same position without securing any margins and I'll get the profits delivered at my home in cash.

I have taken a position in the derivative contract of this commodity.

Sounds too good to be legal!

The position we entered into, turned out to be profitable. I received my funds pay out.

You should have placed the trade with a SEBI registered intermediary.

That guy I traded with my trade was a scam. He didn't pay me anything.

Did you know? Robin trading is illegal. Some of trades cannot be done on the exchange platform. Always trade through a SEBI registered intermediary.

Issued in public interest by Multi Commodity Exchange Investor Protection Fund

MCX METAL & ENERGY Trade with Trust

MCX INVESTOR PROTECTION FUND

RELAXO FOOTWEARS LIMITED

Regd. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 (India), Phones: 91-11-46800600, 46800700, Fax No: 91-11-46800692
E-mail: rfo@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com
CIN: L74899DL1984PLC019097

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
	Audited			
1. Total Income	754.57	544.57	2381.92	2419.53
2. Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	137.61	69.04	391.16	291.71
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	137.61	69.04	391.16	291.71
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	102.17	51.80	291.56	226.25
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	102.61	51.05	293.01	225.56
6. Equity Share Capital	24.84	24.82	24.84	24.82
7. Reserves excluding Revaluation Reserve	-	-	1547.57	1247.58
8. Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)				
Basic	4.11	2.09	11.74	9.12
Diluted	4.10	2.08	11.72	9.10

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Annual Audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com.

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ramesh Kumar Dua
Managing Director
DIN: 00157872
Delhi, May 20, 2021



JK LAKSHMI CEMENT Ltd.

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31.03.2021

Sl. No.	Particulars	Consolidated					
		Quarter ended			Year ended		
		31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2020
1	Total Income from Operations	1,424.32	1,259.84	1,137.47	4,727.44	4,364.07	
2	Profit before Interest, Depreciation & Taxes (EBITDA)	340.47	248.62	253.22	1,011.22	844.04	
3	Net Profit/(Loss) for the Period (before Tax and Exceptional Items)	244.71	143.28	140.60	593.93	399.25	
4	Net Profit/(Loss) for the Period before Tax (after Exceptional Items)	206.87	143.27	140.60	556.06	368.99	
5	Net Profit/(Loss) for the Period after Tax (after Exceptional Items)	159.13	118.43	98.63	421.12	252.94	
6	Total Comprehensive Income for the Period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	154.56	114.19	99.27	407.51	248.46	
7	Equity Share Capital	58.85	58.85	58.85	58.85	58.85	
8	Other Equity				2,035.70	1,628.99	
9	Earnings Per Share (of ₹5/- each)						
	Basic:	12.99	9.69	8.43	34.45	21.08	
	Diluted:	12.99	9.69	8.43	34.45	21.08	

Note: 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 20th May, 2021.
2. Standalone Financial Information of the Company, pursuant to Regulation 47(1)(b) of SEBI (LODR) :

Particulars	Quarter ended		Year ended	
	31.03.2021	31.12.2020	31.03.2020	31.03.2021
Turnover	1349.31	1213.45	1083.68	4459.18
Operating Profit (EBITDA)	295.20	212.46	224.52	864.22
Profit before Tax (before Exceptional Items)	217.45	127.15	131.09	527.51
Profit before Tax (after Exceptional Items)	186.53	127.15	131.09	496.59
Profit after Tax	136.51	102.31	100.75	363.82

3. The above is an extract of the detailed format of Quarter and Year ended 31st March, 2021 Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone & Consolidated Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on Company's website at www.jklakshmicement.com

Place: New Delhi
Date: 20th May, 2021
Vinita Singhania
(Vice Chairman & Managing Director)

PRO CEMENT | JK LAKSHMI CEMENT | PLATINUM CEMENT | JK LAKSHMI SIXER CEMENT | BLANESON CEMENT | JK LAKSHMI PLAST | JK SMART CEMENT

ADMIN OFFICE: NEHRU HOUSE, 4, BANAHUR SHAH ZAFAR MARG, NEW DELHI - 110002
REGD. OFFICE: JAYKAPURAM - 307019, DIST. SIROHI, RAJASTHAN
WEBSITE: WWW.JKLAKSHMICEMENT.COM | E-mail: jkc.investor@jkcmail.com | Fax No: 91-011-23722251 | CIN: L74999RJ1983PLC019511

Short Takes

Wholesale Prices of Pulses Dip 10-15% on Import Policy Change

PUNE Wholesale prices of tur, moong and urad have declined 10-15% this week after government changed pulses import policy from 'restricted' to 'open' in the previous week. Traders, processors, farmers and analysts are concerned the move can put a break on India's efforts of achieving self-sufficiency in pulses as fall in prices can encourage farmers to move to more remunerative crops. The Centre has also asked state governments to monitor pulses under the Essential Commodities Act to control any spike in prices. **Jayashree Bhosale**

New Investment Announcements Decline 68% in FY21: CARE Report

NEW DELHI New investment projects announced during the previous financial year fell by 68% on account of the Covid-19 pandemic and resultant nationwide lockdowns, Care Ratings said in a report. The announced projects, which represent an intention to invest, amounted to ₹5.18 lakh crore in FY21, the lowest since 2004-05 and down from ₹16.28 lakh crore announced in FY20, it said. Surplus capacity in the manufacturing sector and uncertain funding conditions, along with lending hesitancy by banks contributed to the grim investment picture. **Our Bureau**

Govt Allays Buffalo Meat Safety Fears, Says Exports Going On Smoothly

NEW DELHI The government on Thursday said Indian origin frozen boneless buffalo meat is safe and that exports are going on smoothly without any supply chain hurdles. India has maintained its buffalo meat exports at \$3.17 billion in 2020-21, similar to the previous fiscal figure, despite an overall decline in goods exports in the pandemic-hit year, the commerce and industry ministry said in a statement. "Buffalo meat export is going on smoothly... The affordably-priced buffalo meat is contributing towards food security and food price inflation control in the importing countries," the ministry said. **Our Bureau**

Tractors, Power Tillers Allowed to be Retrofitted With Bio-Fuel Engines

NEW DELHI The transport ministry has allowed tractors, power tillers and other agricultural machines and equipment that run on diesel and petrol to be retrofitted with CNG, bio-CNG and LNG engines provided their emission standards remain the same. The decision to allow the retrofitting is aimed at promoting the use of cleaner fuels and extending the lifespan of vehicles used in farming. It comes after road transport and highways minister Nitin Gadkari launched India's first CNG tractor converted from a diesel-based engine. **Nishtha Saluja**

UN Urges Countries to Work Towards Bridging Rural-Urban Divide

NEW DELHI The United Nations has urged countries to bridge the rural-urban divide through an in-situ urbanisation model, which will allow rural populations to reach the urban standard of living without having to migrate to urban areas. "Technological advances may create the foundation for ending the divide, because jobs that were previously considered urban can now be performed from rural areas too," UN said in its World Social Report 2021: Reconsidering Rural Development. **Our Bureau**

Weekly Jobless Rate Hits 14.5%, Highest Since Jun

CMIE data shows consumer sentiment index fell for fifth week in a row

Our Bureau
New Delhi: India's unemployment rate shot up to 14.5% in the week ended May 16, up from 8% in April, said the Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE). The unemployment rate was the highest since it touched 21.7% in May last year, during the nationwide lockdown imposed to curb the spread of Covid-19. "April 2021 had seen an increase in unemployment and a fall in consumer sentiments. May seems to be headed in the same direction. The unemployment rate in May is expected to be in double-digits," the CMIE said in its weekly analysis. The average unemployment rate in 2020-21 was 8.8%. The CMIE data showed that the consumer sentiment index fell another



1.5% for the fifth consecutive week, with the cumulative index down 9.1% since the last week of March. In April, the index of consumer sentiment was nearly 40% lower than it was a year ago. In April 2020, it was nearly 57% lower than the 2019-20 average. It said the main reason for the fall is dip in household income and increased pessimism regarding the future.

While 55.5% households reported a loss of income compared to a year ago, 41.5% said there was no change in their income compared to a year ago and just 2.1% of the households reported higher incomes than they did a year ago. "It is safe to assume that well over 97% of Indian households have suffered a fall in real income," said the CMIE. The business information company said the supply side of the economy had started recovering by September 2020 as restrictions on movements were eased. "But the economy did not offer the same jobs as earlier and not the same household incomes either," it said, adding that by December 2020 household incomes were 6.7% lower than average incomes during 2019-20 and that Indian households are getting poorer.

Net New EPFO Enrolments Fall in FY21

New Delhi: Net new enrolments under the Employees Provident Fund Organisation in 2020-21 fell by a marginal 1.9% to 7,708,375 from 7,858,894 in the previous year on the back of Covid-19 outbreak and a nationwide lockdown last year which had resulted in huge job losses. Net enrolments under EPFO in March stood at 1.12 million in March, down from 1.13 million in February reflecting the impact of partial lockdowns in some key states on jobs, data released on Thursday showed. The highest addition of net new subscribers under EPFO last fiscal was in September at 1.22 million while the retirement fund body saw a dip in net new enrolments in April

and May, which were complete two months of lockdown. The net new enrolments under EPFO fell by 284,576 in April and by 289,489 in May as there were more job losses in these months. As per payroll data, 716,223 new subscribers were added to EPFO in March while 759,590 members exited and rejoined and 353,949 members exited the organisations. Of the net new additions in March, highest addition was in the 22-25 years age bracket at 314,469, followed by new enrolments in 18-22 years age group at 2,28,387 and 2,19,350 additions in the 26-35 years age bracket. **Our Bureau**

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम
HP
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
(A Maharatna Company)
REGISTERED OFFICE : 17, JAMSHEDJI TATA ROAD, MUMBAI - 400 020
Website : www.hindustanpetroleum.com, E-mail: corphq@hpl.in, CIN No: L23201MH1952GQ1008858

EXTRACT OF THE STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2021 (₹ in Crore)

Particulars	Standalone Results				Consolidated Results			
	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
Total Income from operations	85,203.55	71,554.56	270,326.32	287,416.93	85,264.77	71,654.32	270,577.96	287,742.05
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	4,068.51	(1,431.33)	14,246.79	2,575.52	4,069.75	(1,849.93)	14,197.00	2,377.22
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	4,068.51	(2,434.26)	14,246.79	1,572.59	4,069.75	(2,652.86)	14,197.00	1,374.29
Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	3,017.96	26.80	10,663.88	2,637.26	3,060.70	(27.63)	10,662.89	2,638.73
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,015.33	(337.50)	10,677.69	2,186.56	3,086.97	(585.19)	10,816.32	1,980.91
Reserves (excluding Revaluation Reserves)			34,733.70	27,438.15			36,628.45	29,456.41
Paid up Equity Share Capital (Face Value ₹ 10/- each)	1,452.02	1,523.82	1,452.02	1,523.82	1,452.02	1,523.82	1,452.02	1,523.82
Basic and Diluted Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (not annualised)	20.43	0.18	70.57	17.31	20.71	(0.18)	70.57	17.32

Notes :
1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results is available on the Company's Website - (http://www.hindustanpetroleum.com/Financial) and Stock Exchange websites (www.bseindia.com) & (www.nseindia.com).
2) The Board has recommended a final dividend of ₹ 22.75 per equity share.
3) Previous period figures have been regrouped/reclassified, wherever necessary.

By order of the Board
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
sd/-
R. Kesavan
Director (Finance)
DIN : 08202118

Place : Mumbai
Date : May 20, 2021

GOVERNMENT OF HARYANA TENDER NOTICE

Sr. No.	NAME OF BOARD/COMMITTEE	NAME OF WORK/NOTICE TENDER	OPENING DATE (DD/MM)	ADDITIONAL DATE (DD/MM)	ADDRESS OF THE BOARD/COMMITTEE	LOCAL OFFICE CONTACT PERSON/PHONE
1	IBDA	RECONSTRUCTION OF GAS MAINS IN 18 CITIES FOR URBAN & RURAL	21.05.2021	21.05.2021	www.ibda.org	www.ibda.org
2	IBDA	UPPER APPROVED CABLE SYSTEM FOR 18 CITIES IN URBAN & RURAL	21.05.2021	21.05.2021	www.ibda.org	www.ibda.org

FOR FURTHER INFORMATION KINDLY VISIT : www.haryanaprocurement.gov.in or www.etenders.hry.nic.in

WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Govt. of West Bengal Enterprise)

The Chief Engineer, Distribution Project-III Department, WBSEDL, Vidyut Bhawan (2nd Floor, C Block, Salt Lake, Sector-II, Kolkata-700015) invites e-tenders for - (1) NIT No. WBSEDL/DI/ Project-I/Tender/2021-22/UG/WR/12 Date: 21.05.2021; Name of Work: Conversion of Overhead Network into Underground cable system at Bhagawan Town under Paschim Medinipur District within the State of West Bengal. Estimated Cost (approx.): Rs. 19,411.05 Lakh; (2) NIT No. WBSEDL/DI/ Project-I/Tender/2021-22/UG/WR/13 Date: 21.05.2021; Name of Work: Conversion of Overhead Network into Underground cable system at Akarali (Part-I) Town under Paschim Bardhaman District within the State of West Bengal. Estimated Cost (approx.): Rs. 15,635.46 Lakh and (3) NIT No. WBSEDL/DI/ Project-III/Tender/2021-22/UG/WR/14 Date: 21.05.2021; Name of Work: Conversion of Overhead Network into Underground cable system at Akarali (Part-II) Town under Paschim Bardhaman District within the State of West Bengal. Estimated Cost (approx.): Rs. 16,424.70 Lakh. Pre-Bid Meeting: 07.06.2021 at 11:00 hrs. Sale of Bid Documents (online) from 21.05.2021 (11:00 hrs.) to 24.06.2021 (12:00 hrs.). For other details, visit www.wbseeltds.gov.in and www.wbseeltd.in. ICA-719774/2021

ओएनजीसी ONGC
Expression of Interest (EOI)
ONGC, Eastern Offshore Asset, Kakinada invites Pre-qualification criteria (PQC) from reputed and interested domestic agencies for providing Geophysical, Geotechnical survey services for F1 & G5-29 deep-water development project with an objective to ascertain the Experience criteria / Pre-Qualification Criteria (PQC). The details of EOI: PQC meet: 01.06.2021. Venue: Kakinada. Last date of receipt of interest response: 28.05.2021. Note: For further details, please login to ONGC web site https://tenders.ongc.co.in

HAAR EK KARM DESH KE NAAM

KARNATAKA POWER CORPORATION LIMITED
CIN : UB5110KA1970SGC001919

No. : IBOCM/Statutory Auditor Date: 19.05.2021

EXPRESSION OF INTEREST
(Through e-Procurement Portal only)

Bids are invited in English from Bidders for "Engagement of Chartered Accounts for Statutory Audit of M/s. Baranj Coal Mines Private Limited". The Bid Document can be downloaded from the GoK e-Portal: https://eproc.karnataka.gov.in from 19.05.2021 onwards. The last date for receipt of the completed Bids: 17:00 hours IST on June 09, 2021. Further details can be had from the office of The Superintending Engineer(MINES) KPCL, No. 82, Shakti Bhavan, III Floor, Race Course Road, Bangalore - 560 001, Karnataka. Mobile No.: 94459598901. Phone Number: 080-22203894, Facsimile Number: 080-22203894. Email ID:semineer@kpcl@gmail.com Website: www.karnatakakpc.com e-portal helpdesk / Hp help desk: 080-25501216 / 080-25501227.

SOUTH DELHI MUNICIPAL CORPORATION

PRESS NOTICE FOR NOTICE INVITING TENDER
NIT No: EE-Project South-1/SZT/2021-2203 Date: 19.05.2021

Name of work: Action Plan on alternative technologies for drainage system in SDMC areas-Remediation of Waste Water in Pushy Vihar Drain, South Zone. Estimated Amount: Rs.294.81 Lacs. Earnest Money: Rs.5,90,000/-, Time of Completion:06 months. Tender Cost:Rs.2,900/- (non-refundable) I/A F-100-1964. Date & time of Pre bid meeting: 02.06.2021 at 03:00 PM in the Office of Superintending Engineer(Projects), Under Sewar Nagar Fry Over, Defence Colony, New Delhi -110005. Last Date for Downloading Tender Documents: 18.06.2021 02:00 PM. For tender documents, online tendering time table and the details of work please refer https://tenders.gov.in. All details of revision, clarification, corrigendum/addendum, line extension etc. (if any) in respect of the above tender will be uploaded on the above mentioned website only and no press notice of any kind shall be issued. Bidders should regularly visit the website to keep themselves updated in respect of these tenders. Ex. Engineer (Project) South Zone

RELAXO FOOTWEARS LIMITED
Regd. Office: Aggarwal City Square, Plot No. 10, Manglam Place, District Centre, Sector-3, Rohini, Delhi-110085 (India). Phone: 91-11-46800600, 46800700, Fax No: 91-11-46800692
E-mail: rfi@relaxofootwear.com, Website: www.relaxofootwear.com
CIN: L98F99DL1984PLC019057

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021 (₹ in Crore)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020
	Audited			
1. Total Income	754.57	544.57	2381.92	2419.53
2. Net Profit for the period before tax (before Exceptional and Extraordinary Items)	137.61	69.04	391.16	291.71
3. Net Profit for the period before tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	137.61	69.04	391.16	291.71
4. Net Profit for the period after tax (after Exceptional and Extraordinary Items)	102.17	51.80	291.56	226.25
5. Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	102.61	51.05	293.01	225.56
6. Equity Share Capital	24.84	24.82	24.84	24.82
7. Reserves excluding Revaluation Reserve	-	-	1547.57	1247.58
8. Earnings Per Equity Share of Face Value of ₹ 1/- each (in ₹)				
Basic	4.11	2.09	11.74	9.12
Diluted	4.10	2.08	11.72	9.10

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Quarterly / Annual Audited Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.relaxofootwear.com.

For and on behalf of the Board of Directors
sd/-
Ramesh Kumar Dua
Managing Director
Delhi, May 20, 2021
DIN: 00157872

To place an ad in
timesinterac
Connecting People, Connecting Needs.

Logon to :
ads.timesgroup.com

Scan QR Code

You can also call Aparna for Matrimonials ads on: 7906444528
Aman for Recruitment ads on : 9312633518

RELAXO FLITE SPARX Bahamas

फटाफट खबरें

नारद केस की सुनवाई हाई कोर्ट ने टाली

पीटीआई, कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने नारद रिटिंग मामले की सुनवाई कुछ जरूरी वजह बताते हुए टाल दी। ये सुनवाई गिरफ्तार टीएमसी नेताओं को दी गई जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर होनी थी।

अमेरिका से मिली 36.55 अरब की मदद

पीटीआई, वाशिंगटन: अमेरिका ने कोविड से लड़ाई में भारत को अभी तक 36.55 अरब रुपये से अधिक की मदद दी है। वाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, 'अभी तक अमेरिका ने भारत को 36.55 अरब रुपये से अधिक की कोविड-19 सहायता पहुंचाई है।'

BJP MLA से बोले, वोट मांगा तो लठ तैयार

विस, देहरादून: उत्तराखंड में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल को लोगों के गुस्सा का सामना करना पड़ा। वह कोरोना महामारी के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लेने पहुंचे थे।

WHO ने कहा, अभी टारलें विदेश यात्राएं

पीटीआई, लंदन: WHO के यूरोप के निदेशक ने कोरोना महामारी को लेकर सतर्क किया है। गुरुवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महामारी के खिलाफ जंग में मिली कामयाबी क्षणिक है।

तेलंगाना में आ रहे तनाव भरे फोन कॉल

एनबीटी न्यूज डेस्क: तेलंगाना में रचाकोड़ा पुलिस ने 'साइको सोशल काउंसिलिंग सेवा' की शुरुआत की है। पिछले दिनों हेल्पलाइन नंबर आए फोन कॉल से पता चलता है कि लोगों में लॉकडाउन को लेकर तनाव और खुदकुशी की प्रवृत्ति बढ़ी है।

MP में मास्क न पहनने पर महिला को घसीटा

पीटीआई, सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले में महिला के मास्क न पहनने पर कुछ पुलिसवालों ने उसे सड़क पर पीटा और बाल पकड़कर घसीटा। महिला कोविड-19 महामारी के कारण लगे कर्फ्यू के दौरान सब्जी खरीदने बाजार आई थी।

बेलगाम में पाँजिटिव रेट 81% से ज्यादा

टीएनएन, बैंगलूर: कर्नाटक में लोकसभा उपचुनावों को बेलगाम जिले में कोरोना संक्रमण फैलने के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। सरकारी अंकड़ों के मुताबिक बीते पांच दिनों में इस जिले में 8722 लोग कोरोना पाँजिटिव पाए गए हैं।

पीएम पर ममता का तीखा हमला- हमारी सुनी नहीं, अपनी कहते रहे कोविड-19 के हालात पर सीएम-डीएम संग बैठक पर सियासी हंगामा

Narendra.Mishra@imesgroup.com

नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के हालात पर गुरुवार को मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ने इस मीटिंग में सीएम को बोलने का कोई मौका नहीं दिया और वे ऐसी मीटिंग का इन्तेजाम सिर्फ अपने प्रचार के लिए करना चाहते हैं।



मुख्यमंत्रियों और जिलाधिकारियों के साथ पीएम मोदी ने मीटिंग की।

पीएम बोले, बच्चों को लेकर सजा रहे

पीएम ने कोविड वायरस को धूर्त और बहुलपिया बताते हुए कहा है कि यह स्टूटेशन में अपना रूप बदलता रहता है जिसके चलते युवाओं और बच्चों को लेकर अधिक सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने हाल के कुछ दिनों में पेंसिव केस के कम होने के ट्रेड के बावजूद किसी तरह की सुस्ती से बचने की हिदायत दी है।

ममता ने मीटिंग हाइजैक की कोशिश की: शुभेंदु

पीटीआई, कोलकाता: बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि वह पीएम मोदी के साथ अपनी मीटिंग को सियासीकरण में जुट गई हैं। टी वीट्विस्ट में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता ने पहले भी प्रधानमंत्री के साथ कई बैठकों में भाग नहीं लिया है और अब वह पीएम-डीएम बैठक की आड़ लेकर कह रही हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया।

वाराणसी के डॉक्टरों से आज बात करेंगे पीएम

एनबीटी न्यूज, वाराणसी: पीएम मोदी शुक्रवार को डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस दौरान पीएम पंडित राजन मिश्रा कोविड हॉस्पिटल सहित तमाम अस्पतालों में इन संघर्षों में काम शुरू कर दिया है।

सोनिया की PM को चिट्ठी, मां-बाप को खोने वाले बच्चों का खर्च उठाए सरकार

विशेष संवाददाता, नई दिल्ली: कोरोना महामारी के इस दौर में ऐसे तमाम मामलों सामने आए हैं, जहां बच्चों ने अपने माता-पिता दोनों को खो दिया और अनाथ हो गए। उनकी देखरेख के लिए कोई नहीं बचा।



सोनिया गांधी

शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नवोदय विद्यालयों में भर्ती कराएं

नवोदय विद्यालयों का जिक्र करते हुए कहा कि गुरुने के वाले इन बच्चों को अच्छे भविष्य की उम्मीद दें। ये बच्चे सड़मे में हैं और इनकी सतत शिक्षा और भविष्य के लिए कोई मदद उपलब्ध नहीं है।

के कार्यकाल में शुरू किए गए नवोदय विद्यालयों का जिक्र करते हुए कहा कि फिलहाल देश में 661 नवोदय विद्यालय चल रहे हैं।

जब्त ऑक्सिजन-दवा रिलीज के लिए याचिका

Rajesh.Choudhary@imesgroup.com

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि पुलिस ने ऑक्सिजन सिलिंडर, रेमेडेसविर और इन तहक की अन्य चीजें जो जन्म कर रही हैं, उन्हें कोरोना के इलाज में प्रयोग के लिए आदेश जारी किया जाए।

वकील को ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि ऐसे जब्त किए गए सामानों की विडियोग्राफी कराने के बाद उन्हें मरीजों के हित में जारी कर दिया जाना चाहिए।

कोरोना पर रिसर्च के लिए दान किया शरीर

पीटीआई, कोलकाता

पश्चिम बंगाल की 93 साल की ट्रेड यूनियन लीडर ज्योत्सना बोस ने कोरोना वायरस के अस्स का पता लगाने के लिए अपना शरीर मेडिकल रिसर्च की खातिर दान किया है।



फैसला किया था। उन्हें 14 मई को उत्तरी कोलकाता के बेलियाघाटा इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

सेंट्रल विस्टा मसले पर मंत्री पुरी ने साफ की स्थिति

विस, नई दिल्ली: आलोचनाओं में घिरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर गुरुवार को आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्टाई दी। पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत अभी केवल नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एग्ज्यूटिव पर ही काम चल रहा है।

जींद में ऑक्सिजन सप्लाई रुकने से 3 मरीजों की मौत

एनबीटी न्यूज, जींद: यहां के नागरिक अस्पताल में बुधवार रात ऑक्सिजन सप्लाई बाधित होने से कोरोना के तीन मरीजों की मौत हो गई।

Advertisement for National Aerospace Laboratories (NAL) recruitment. It includes details about the organization, the specific notification for Technical Assistant, Senior Technical Officer, and Senior Technical Officer-2 positions, and contact information for the recruitment process.

Advertisement for Delhi Technological University (DTU) admission. It states that the university is inviting applications for its M.Tech. programmes in various disciplines for the academic session 2021-2022.

Advertisement for RELAXO FOOTWEARS LIMITED. It provides the company's registered office address in Aggarwal City Square, Delhi, and lists contact details including phone numbers and email addresses.

Advertisement for the Directorate of Aviation, Govt. of Madhya Pradesh. It is for the insurance of aircrafts and includes details about the insurance companies invited for the tender, contact information, and the deadline for submission of bids.

Advertisement for the Uttar Rेलवे (Uttar Railway) recruitment. It features a large heading 'यात्रीगण कृपया ध्यान दें महत्त्वपूर्ण सूचना' and details about the recruitment process for various posts, including the application form, dates, and contact information.

A detailed financial table titled 'EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2021'. The table compares quarterly and yearly financial data for 2021 and 2020 across various categories like Total Income, Net Profit, and Earnings Per Share.